# **FINANCIAL EXPRESS**

'IMPORTANT'' Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.



**ARC FINANCE LIMITED** 

CIN: L51909WB1982PLC035283 Regd. Off.: 18, Rabindra Sarani, Poddar Court Gate No.4, 4th Floor, Room no. 3, Kolkata-700 001 Email ID: arcfinancelimited@gmail.com

NOTICE OF 39th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING **INFORMATION AND BOOK CLOSURE** The notice is hereby given that:

1. The 39th Annual General Meeting ('AGM') of the Company will be held at 221, Rabindra Sarani, 3rd Floor, Kolkata-700007 on Wednesday, 29th September, 2021 at 10:00 AM to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of AGM; 2. Electronics Copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2021 have been sent

dispatch of Notice of AGM has been completed on 07th September, 2021. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22th September, 2021, may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business as set out in the Notice of AGM through electronics voting system of Central Depository Services Limited (CDSL) from a place other than venue of AGM ("remote e-voting"). All the members are informed that:

to all members whose email IDs are registered with the Depository Participants. The

i. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronics means:

ii. The remote e-voting shall commence on Sunday, 26th September, 2021 at 09:00 A.M. IST

iii. The remote e-voting shall end on Tuesday, 28th September, 2021 at 5:00 P.M. IST iv. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Wednesday, 22th September, 2021.

v Any person, who acquire shares of the Company and become member of Company

after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e

Wednesday, 22th September, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@cdsl.co.in. However, if person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote; vi. Members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM; and c) the member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting: and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial members maintained by the depositories as on the cut-off

through ballot paper; vii. In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members at the Downloads Section of https://www.evoting.cdsl.com or call on toll free number 1802005533 or at the designated email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com, who will address the grievances connected with the electronic voting. Members may also write to the Company Secretary at the above mentioned email ID or the Registered Office

date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM

address. **BOOK CLOSURE** 

The Register of Members and the Share Transfer books of the Company will remain closed from Thursday, 23th September, 2021 to Wednesday, 29th September, 2021 (both days inclusive).

For ARC FINANCE LIMITED

Place: Kolkata Date: 07th September, 2021

**Rohit Jain Company Secretary** M. No. 44371

#### LEMON TREE HOTELS LIMITED

(CIN: L74899DL1992PLC049022) Regd. Office: Asset No. 6, Aerocity Hospitality District, New Delhi - 110037

Tel. No.: 011 - 4605 0101; Fax No.: 011 - 4605 0110 Website: www.lemontreehotels.com

Email: sectdeptt@lemontreehotels.com



### NOTICE OF THE 29<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) REMOTE E-VOTING INFORMATION

- 1. This to inform that further to the Notice published on September 1, 2021 in Financial Express and Jansatta about the conduct of AGM of the Company through video conference/ other audio visual means on Thursday, September 30, 2021 at 03.00 P.M., shareholders are hereby informed that National Securities Depository Limited ("NSDL"), for and behalf of the Company, have e-mailed the Annual Report for the year 2020-21 along with the Notice of the AGM on Tuesday, September 7, 2021 to all those shareholders whose e-mail address is registered with the Company/depositories.
- 2. The Annual report along with the Notice convening AGM is also available on the website www.evoting.nsdl.com, www.lemontreehotels.com, www.nseindia.com, www.bseindia.com.
- All the members are hereby informed that remote e-voting commences on Friday, September 24, 2021 at 09.00 a.m and ends on Wednesday, September 29, 2021 at 5.00 p.m. The remote e-voting facility will not be allowed beyond the said date and time. NSDL will disable the remote e-voting module after that. The cut-off date for determining entitlement of electronic voting is Thursday, September 23, 2021. The members who have cast their vote through remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Thursday, September 23, 2021 may obtain the login ID and password by sending an email to evoting@nsdl.co.in by mentioning their folio No./DP ID and Client ID. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote.

4. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after

5. In case of any queries/grievances pertaining to remote e-voting (before the AGM and during the AGM), you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll-free number: 1800 102 0990; 1800 22 4430 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager from NSDL at the aforementioned designated e-mail ID and toll free no.

> For Lemon Tree Hotels Limited Sd/-Nikhil Sethi Group Company Secretary & GM Legal

Regd. Office: C-41, Defence Colony New Delhi-110024

Corp. Office: B-16, Site-C Surajpur Industrial Area Greater Noida

Gautam Budh Nagar U.P. 201306

CIN- L92111DL1985PLC021095.

Ph: 0120-2569761,Fax: 0120-2569769

Email Id: corp.compliance@calcomindia.com,

Website: www.calcomindia.com

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING.

REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

In continuation to our earlier advertisement dated 05.09.2021. Notice

is hereby given that the 36th Annual General Meeting (AGM) of the

Members of the Company is scheduled to be held on Thursday, 30th

September, 2021 at 11:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC"

Other Audio Visual Means ("OAVM") facility to transact the businesses as

set out in the Notice of AGM, incompliance with all the applicable provisions

of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with

General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated

April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and Jan 13,2021 respectively

"MCA Circulars"), and SEBI circular (collectively referred as "Circulars")

have permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through VC/ OAVM

facility, without the physical presence of the Members at the common

venue. A detailed instruction for joining the AGM through VC is given in

The Notice of 36th AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-

21 have been sent in electronic mode only to those Members of the

Company whose email IDs are registered with the Company/ RTA or

Depository Participant(s) ("Depository"). The Electronic dispatch of Notice

and Annual Report was completed on 7th September 2021. The aforesaid

documents are also available and can be downloaded from Company's

website at www.calcomindia.com and on the website of the Stock

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as

amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing its Members

the facility to cast their vote by electronic means on all resolutions set forth

in the Notice through remote e-voting facility provided by National Securities

Depository Limited (NSDL). The details as required pursuant to the Act

The remote e-voting shall commence on Monday, 27th September 2021

at 9:00 a.m. (IST) and end on Wednesday, 29th September 2021 at

05:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the

A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial

owners as on the cut-off date of 24th September, 2021 only, shall be

entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting at the

neeting. Any person who have acquired shares and become members

of the Company after dispatch of notice of AGM and holds share(s) as on

the cutoff date, can also cast vote either through remote e-voting or e-

voting at the AGM. The detailed procedure for login details are provided

in the Notice of the meeting which is available on Company's website

The facility for voting through electronic means shall also be provided at

the AGM. Those Members who are present at the AGM through VC/

OAVM facility and have not already cast their votes on the resolutions via

remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system at the

AGM. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to

the meeting may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be

Members who have not registered their email ID may get the same

registered/updated with Company / RTA or Depository to cast their vote

(s) through remote e-voting before the AGM or through e-voting during

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions

(FAOs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders

available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll

free no.: 1800-222-990 you can also contact Ms. Soni Singh on

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013.

Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014

and Reg 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer

Books will remain closed from Friday, 24th September, 2021 to Thursday,

30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of annual

For Calcom Vision Limited

Aayushi Jindal

18001020990; 1800224430 or send a email at evoting@nsdl.co.in.

allowed to cast their vote again at the AGM.

Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com

and Rules are a under

said date and time.

closure of Books.

Place: Noida

Date: 07.09.2021

Date: 7th September, 2021

Place: New Delhi INDIA FINSEC LIMITED CALCOM VISION LIMITED

Sector-14. Rohini. Delhi-110085. CIN: L65923DL1994PLC060827, PH NO- 011-47096097

REGD. OFF.: D-16, First Floor, Above ICICI Bank, Prashant Vihar,

E-MAIL- indiafinsec@gmail.com, Website- www.indiafinsec.com NOTICE OF 27TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING PROCEDURES & INTIMATION OF BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 27th Annual General Meeting of the

Members of India Finsec Limited will be held on Thursday, 30th day of September, 2021 at 09:30 A.M. at D-16, First Floor, Prashant Vihar, Sector-14. Rohini, New Delhi-110085 to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM along with the Annual Report for Financial Year 2020-21 through electronic mode to the members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories as on September 3rd, 2021. The Annual Report for Financial Year 2020-21 is available and can be downloaded from the Company's website https://www.indiafinsec.com/investors-info/ In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with

rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), guidelines prescribed by the MCA. the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by CDSL. The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, 23rd September, 2021("Cut-The remote E-Voting period commences on Monday, 27th September,

2021 (10:00 am) and ends on Wednesday, 29th September, 2021 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronicall The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day.

Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, 23rd September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 27th AGM of the Company.

Any person who acquires shares and become member of the Company

after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. 23rd September, 2021 can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz indiafinsec@gmail.com, website of stock exchange viz BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of CDSL viz www.evotingindia.com. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM

Members are also informed that in case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evotingindia@cdslindia.com or at 022-23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL.) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

By the Order of the Board of Directors For India Finsec Limited

Date: 07th September, 2021 Place: New Delhi

financialexp.epapr.in

Vijay Kumar Dwivedi Company Secretary

ANKIT METAL & POWER LIMITED Regd. Office: 35, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700 012 Phone No.: +91-33-2211 0225

Corporate Office: SKP House, 132A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026 Phone No.: +91-33-4016 8000/8100; Fax: +91-33-4016 8191/8107 Website: www.ankitmetal.com; E-mail: cs@ankitmetal.com CIN: L27101WB2002PLC094979

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 19th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company for financial year 2020-21 is scheduled to be held on Tuesday, 28th September, 2021 at 1.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM (the Notice) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 along with all applicable circulars on the matter ssued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) Members are requested to go through the Notice of AGM carefully particularly instructions given therein for attending AGM and matters associated therewith.

In compliance with the above MCA and SEBI circulars, electronic copies of Notice of 19th AGM along with Annual Report for the financial year 2020-21 has been dispatched on 6th September, 2021 to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants for communication purpose. Notice of the 19th AGM along with Annual Report will also be available on the Company's website www.ankitmetal.com, website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. Members holdings shares in physical mode are requested to update their email id with RTA at prasanta.sen@linkintime.com or with the Company at cs@ankitmetal.com. Members holdings shares in dematerialised mode are requested to update their email id and mobile number with the concerned. Depository Participants. The Company is pleased to provide to all its members holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday

21st September, 2021 with the facility to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) provided by CDSL to transact businesses as set out in the Notice of AGM The detailed manner for participating through remote e-voting facility and e-voting during the AGM is given in the Notice. The remote e-voting period will commence on Saturday, 25th September, 2021 at 9:00 a.m. and will end on Monday, 27th September, 2021 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Any person who become member after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday, 21st September, 2021 may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or RTA of the Company a prasanta.sen@linkintime.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e voting, then they can use the existing user id and password to cast their votes. The Company has opted to provide e-voting during the AGM which is integrated with the VC/OAVM platform and no separate login id is required for the same. Members who had cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Those members attending the AGM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.

in case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to FAQs and e-voting manual available a www.evotingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact the Company or Registrar and Share Transfer Agent.

> By Order of the Board For Ankit Metal & Power Limited

Place: Kolkata Date: 7th September, 2021

Vineeta Barmecha Company Secretary & Compliance Officer



Regd. Office: 35, Chittaranjan Avenue, Kolkata - 700 012 Phone No.: +91-33-2211 0225 Corporate Office: SKP House, 132A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata - 700 026 Phone No.: +91-33-4016 8000/8100; Fax: +91-33-4016 8191/8107 Website: www.impexferrotech.com; E-mail: cs@impexferrotech.com CIN: L27101WB1995PLC071996

IMPEX FERRO TECH LIMITED

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company for

financial year 2020-21 is scheduled to be held on Tuesday, 28th September, 2021 at 3.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM (the Notice) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 along with all applicable circulars on the matter issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI). Members are requested to go through the Notice of AGM carefully particularly instructions given therein. for attending AGM and matters associated therewith. in compliance with the above MCA and SEBI circulars, electronic copies of Notice of 26th AGM along with

Annual Report for the financial year 2020-21 has been dispatched on 6th September, 2021 to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants for communication purpose. Notice of the 26th AGM along with Annual Report will also be available on the Company's website www.impexferrotech.com, website of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com respectively and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. Members holdings shares in physical mode are requested to update their email id with RTA at mdpldc@yahoo.com or with the Company at cs@impexferrotech.com. Members holdings shares in dematerialised mode are requested to update their email id and mobile number with the concerned

The Company is pleased to provide to all its members holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday, 21st September, 2021 with the facility to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) provided by CDSL to transact businesses as set out in the Notice of AGM. The detailed manner for participating through remote e-voting facility and e-voting during the AGM is given in the Notice. The remote e-voting period will commence on Saturday, 25th September, 2021 at 9:00 a.m. and will end on Monday, 27th September, 2021 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled thereafter. Any person who become member after dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e., Tuesday, 21st September, 2021 may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or RTA of the Company at mdpldc@yahoo.com. However, if the member is already registered with CDSL for remote e-voting, then they can use the existing user id and password to cast their votes. The Company has opted to provide e-voting during the AGM which is integrated with the VC/OAVM platform and no separate login id is required for the same Members who had cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Those members attending the AGM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote

In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to FAQs and e-voting manual available a www.evofingindia.com under help section or write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com o contact the Company or Registrar and Share Transfer Agent.

By Order of the Board For Impex Ferro Tech Limited

Place: Kolkata Date: 7th September, 2021

Richa Lath Company Secretary & Compliance Officer

MANORAMA INDUSTRIES LIMITED Registered Office: Office No. 403, MIDAS, Sahar Plaza,

Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059, Maharashtra CIN: L15142MH2005PLC243687 Website: www.manoramagroup.co.in; Tel No: 022 22622299 Corporate Office: F-6, Anupam Nagar, Raipur - 492 007, Chhattisgarh Tel: +91-771-2283071,Fax: 0771 4056958 E-mail:cs@manoramagroup.co.in

16TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 16th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of Manorama Industries Limited ('the Company') will be held on Wednesday, September 29, 2021 at 04.00 p.m. through VC OAVM, to transact the business as set forth in the notice convening the meeting ("Notice"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 02/2021, 11/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 January 13, 2021 and January 15, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular") and Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars, the electronic copies of the Notice of the 16th AGM along with Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 has been sent only by electronic mode to all the members whose email address were registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent on September 03, 2021. The Notice of AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 is also available on the website of the Company https://www.manoramagroup.co.in/investors-annual-report and on the website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. and on the website of the Link Intime India Private Limited at https:// instavote.linkintime.co.in.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, ('the Act') and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and in accordance with Regulation 42 the SEBI (Listing Obligations and Disclosure lequirements) Regulations, 2015, it is hereby informed that the Regist of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021(both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing to the members the facility to exercise their right to vote at the 16th AGM by electronic means and business may be transacted through e-voting services (remote e-voting) provided by the Link Intime India Private Ltd

The instructions for e-voting are given in the Notice of 16th AGM Members are requested to note the following: a) A person whose name is recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 22, 2021 shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting during the time of b) The remote e-voting period commences on 9.00 a.m. Sunday

September 26, 2021 and will end at 5.00 p.m. on Tuesday, September

voting system during the AGM. The instructions for attending the 16th

- 28, 2021. During this period, shareholders of the Company may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. c) Members present at the meeting through VC/OAVM and who had not cast their votes on the resolutions shall be eligible to vote through e-
- AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of the 16th AGM. d) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. e) Detailed procedure for e-voting is provided in the Notice of the 16th
- AGM. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares of the Company as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 22, 2021 may obtain his User ID and Password by sending an email to enotices@linkintime.co.in. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may
- refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and instaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or write an email to enotices@linkintime.co.in and mark cc to cs@manoramagroup.co.in or contact on: 022-49186000.

By Order of Board of Directors Manorama Industries Limited Vinita Saraf

glenmark LIFE SCIENCES

**Glenmark Life Sciences Limited** 

Registered Office: Plot No. 170-172, Chandramouli Industrial Estate, Mohol Bazarpeth, Solapur - 413 213, India. Corporate Office: 4th Floor, OIA House, 470, Cardinal Gracious Road, Andheri (E), Mumbai 400 099, India. **Phone No:** +91 22 68297979 **CIN:** U74900PN2011PLC139963

Website: www.glenmarklifesciences.com; Email: complianceofficer@glenmarklifesciences.com

Notice is hereby given to the Members of Glenmark Life Sciences Limited ('the Company'), pursuant to Section 108

NOTICE OF POSTAL BALLOT

and Section 110 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 and Rule 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ('Management Rules') read with the General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020. 39/2020 dated December 31, 2020 and 10/2021 dated June 23, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars'), and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ('Listing Regulations') and other applicable provisions of the Act, Rules, Circulars and Notifications issued thereunder (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the approval of Members of the Company is being sought for the following Ordinary Resolution by way of Postal Ballot by voting through electronic means only ('remote e-voting'): 1. To approve Material Related Party Transactions with Glenmark Pharmaceuticals Limited

Pursuant to the MCA Circulars, the Company has sent the electronic copies of the Postal Ballot Notice along with

their e-mail address with the Company or with their Depository Participant as on Friday, September 3, 2021 i.e. the cut-off date. The Postal Ballot Notice will also be available on the Company's website at www.glenmarklifesciences.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of KFin Technologies Private Limited at https://evoting.kfintech.com. In accordance with the provisions of the MCA Circulars, Members can vote only through the remote e-voting process. Members whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, September 3,

Explanatory Statement on Tuesday, September 7, 2021 to all Members of the Company, who have registered

shall treat this notice for information purposes only. The Company has engaged the services of KFin Technologies Private Limited for providing e-voting facility to all its Members. Members are requested to note that e-voting will commence at 9.00 AM IST on Wednesday, September 8, 2021 and will end at 5.00 PM IST on Thursday, October 7, 2021. E-voting shall not be allowed beyond

2021 will be considered for the purpose of e-voting and voting rights shall be reckoned on the paid-up value of Equity

Shares registered in the name of the shareholders as on that date. A person who is not a Member on the cut-off date

5.00 PM IST on Thursday, October 7, 2021. All shares of the Company are held in dematerialised mode. Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same in respect of shares held in electronic form with the Depository through their

Depository Participant(s). The instructions on the process of e-voting, including who have not registered their e-mail addresses can cast their vote through e-voting, are provided in the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Bhadresh Shah, Practicing Company Secretaries as the scrutinizer to conduct the Postal Ballot only through the e-voting process in a fair and transparent manner. The results of Postal Ballot through e-voting (along with the Scrutinizer's report) will be declared by the Chairman

or Managing Director of the Company on or before Saturday, October 9, 2021 and will also be displayed on the website of the Company i.e. www.glenmarklifesciences.com, besides being communicated to the Stock Exchanges and Registrar & Share Transfer Agent.

In case of any queries/grievances, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual available at the 'download' section of https://evoting.kfintech.com or call KFin on 1800 309 4001 (toll free).

For Glenmark Life Sciences Limited

Place: Mumbai

Date: September 7, 2021

**Rudalf Corriea Company Secretary & Compliance Officer** 

MRVL

#### THE MANDHANA RETAIL VENTURES LIMITED CIN: L52390MH2011PLC213349

Registered Office: Plot No. E-132, M.I.D.C., Tarapur Industrial Area, Boisar, Dist. Palghar - 401506 Corporate Office: 209. Peninsula Centre, Dr. S. S. Rao Road, Parel, Mumbai - 400012. Tel. No:- +91-22-43539790 • Email:- cs@tmrvl.com • Website: www.mrvlindia.com

NOTICE

NOTICE OF THE 10<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting ("AGM") of The Mandhana Retail Ventures Limited ("the Company") will be held on Wednesday, 29th September, 2021 at 02:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of the AGM, in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended), General Circulars No.14/2020 dated 8th April, 2020, No.17/2020 dated 13th April, 2020, No.20/2020 dated 5th May, 2020 and No. 02/2021 dated 13th January, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") (collectively referred as "Applicable Circulars"), without the physical presence of the members at the venue. The venue of the meeting shall be deemed to be the registered office of the Company.

In compliance with the applicable Circulars, the Notice of the 10th AGM ('Notice') and the Annual Report of the Company including financial statements for the financial year 2020-21 along with Board's Report, Auditor's Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 7th September, 2021 through electronic mode to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copies of the Notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide the Applicable Circulars.

The Notice of the AGM and the Annual Report of the Company are also available on the website of the Company at www.mrvlindia.com, on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of Link Intime India Private Limited ("LIIPL"), the Registrar and Transfer Agent of the Company (agency for providing the Remote e-Voting facility and voting at the AGM) i.e. https://instavote.linkintime.co.in.

Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), Secretarial Standard No. 2 on General Meetings and the Applicable Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting/ e-voting to its Members to cast their votes electronically in respect of the business to be transacted at the AGM as set forth in the notice of the AGM, provided by the LIIPL for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 22nd September, 2021, may cast their vote electronically. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 22nd September, 2021 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM.

The remote e-voting period commences on Sunday, the 26th September, 2021 (9:00 A.M. IST) and ends on Tuesday, the 28th September, 2021 (5:00 P.M. IST). The remote e-voting module shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on Tuesday, the 28th September, 2021. The remote e-voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. The manner of e-voting for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses has been provided in the Notice. A facility of joining the AGM through VC/OAVM is available through LIIPL e-voting portal at https://instameet.linkintime.co.in. Members are requested to refer to the AGM Notice for details and procedure for login during the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change

it subsequently. In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of Notice but on or before the cut-off date i.e. the 22nd September, 2021, he/she may obtain login id and password by sending a request at Company's e-mail ID at cs@tmrvl.com mentioning demat account number/ folio number, PAN, name and registered address. Such Members may cast their votes using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of the AGM. The facility of e-voting shall be made available at the AGM and members attending the AGM, who have not already cast their vote, may cast their vote electronically on business(es) set forth in Notice. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s)

Members holding shares in physical form who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company or with LIIPL may obtain aforesaid notice of AGM, Annual Report and login details for joining AGM, by sending a scan copy of a signed request letter mentioning name, folio number, complete address, scanned copy of self- attested PAN Card and any document (such as Driving Licence, Passport, Bank Statement, AADHAAR) in support of the address of the Members registered with the Company, by sending an email at cs@tmrvl.com and /or sending a letter to Link Intime India Private Limited, Unit: The Mandhana Retail Ventures Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West) Mumbai - 400 083. Members holding shares in demat form, can update their email address with their respective Depository Participant/s.

The name, designation, address, email ID and phone number of the person responsible to address the grievances connected with the facility for voting by electronic means are as follows:

Mr. Rajiv Ranjan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd. (Unit: The Mandhana Retail Ventures Ltd.), C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, contact no.022-49186000/49186270, e-mail ID: enotices@linkintime.co.in.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, the 23rd September, 2021 to Wednesday, the 29th September, 2021 (both days inclusive) for the The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Nitin R. Joshi, Practicing Company

and transparent manner. The results shall be declared not later than forty-eight working hours from conclusion of the AGM by posting the same on the website of the Company at www.mrvlindia.com, website of LIIPL on

Secretary (Membership No. FCS 1884), as Scrutinizer to scrutinize the entire voting procedure in a fair

https://instavote.linkintime.co.in and by filing with the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National By Order of the Board of Directors

For The Mandhana Retail Ventures Limited

SANGEETA MANDHANA MANAGING DIRECTOR DIN: 06934972

New Delhi

Stock Exchange of India Limited.

Mumbai

7" September, 2021

Place: Raipur Company Secretary M.No.: A55567

Date : September 07, 2021 Chairperson and Managing Director

पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद–201206 (यू.पी.) CIN: L17100UP2016PLC084473 ई—मेलः spaceincubatrics@gmail.com, वेबसाइटः www.spaceincubatrics.com

दूरभाष:- 01232 - 261288

वार्षिक साधारण समा की सूचनाः

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्पेस इंक्युबैट्रिक्स टैक्नालॉ्जीस लिमिटेड व सदस्यों की 5वीं वार्षिक साधारण सभा बृहस्पतिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को मध्यान्ह 12:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद— 201206 (यू.पी.) पर, वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनोंक 28 अगस्त 2021 में वर्णित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट सेमेत पृथक रूप से इलैक्ट्रानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफरें एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट www.spaceincubatrics.com और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई-बोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंटल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि0 ('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है। इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें:

- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपंन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता है।
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेत शेयर होल्डरों के निर्धारण हेतू कट-आफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर 2021 है। जिन सदस्यों के पास कट-आफ तिथि की कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलैक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम, जो https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं।
- (iii) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर 2021 (सोमवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर 2021 (बुधवार) को 5.00 बजे सायं पर समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा २९ सितम्बर २०२१ (बुधवार) को 5.00 बजे सायं पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत वोटिंग की छूट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपनी वोट डाल देने के बाद संदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा।
- (iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट—आफ तिथि 23 सितम्बर, 2021 (बृहस्पतिवार) को शेयरधारक हो, वे ई-वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैं: दूरभाष संख्याः 022-23058738 व 022-23058542-43, ई-मेल आई डी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com
- (v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी (vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट पुनः डालने की छूट नहीं होगी।
- (vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट-आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस को https://www.spaceincubatrics. com/wp-content/uploads/2021/09/Notice\_AGM\_Space\_2021.pdf से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग युजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री अंकित बांदीवाडेकर, सीडीएसएल, ट्रेड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 से अधिकृत ई-मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दूरभाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं।

वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मास्क, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कड़ाई से पालन करते हुए होगी। वास्ते-स्पेस इंक्युबैद्रिक्स टैक्नालॉजीस लि0

ह0/- (मेघा वशिष्ठ) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

जबकि, अद्योहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन

अधिनियम 2002, (2002 का सख्याक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग

करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांको को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों से

भगतान की मांग करते हुये संबन्धित सुचना के अन्तर्गत राशि इस सुचना की प्राप्ति के 60 दिनों मे भगतान करने के लिये निममित किया। सम्बन्धित

ऋणियों द्वारा राशि के भुगतान में असफल होने पर ऋणियो को तथा जन सामान्य को यह सचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा संपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले

लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों / मालिको को विशेषता तथा जन सामान्य को सुचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करे

बंधक सम्पत्ति का विवरण

श्री राम भरोसे लाल के नाम, क्षेत्रफल 44.05 वर्गमीटर,

सीमायें:--उत्तर: सुशील चंद्र का मकान, दक्षिण: राजू कश्यप का

34वीं वार्षिक आमसभा की सूचना

एतदृद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 34वीं वार्षिक आम सभा से संबंधित फाइनांसियल एक्सप्रैस (अंग्रेजी) तथा

जनसत्ता (हिन्दी) दिल्ली अंक तिथि 02.09.2021 को प्रकाशित हमारी सूचना के अधिक्रम में एतद्द्वारा सूचित किया जाता

है कि फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों की (''एजीएम'') बुधवार 29.09.2021 को 4.00 बजे अप. में विडियो

कॉन्फ्रेसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो माध्यमों ('ओएवीएम') सुविधा द्वारा आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना

में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा। फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जात

है कि एजीएम की आमंत्रण स्चना, ई-वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम में ई-वोटिंग) की प्रक्रिया एवं निर्देशों तथा

एफवाई-21 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रानिक प्रति 6.9.2021 को उन सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी

कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स ('डीपी') के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण कम्पनी की वेबसाईट अर्थात्

www.phoenixindia.com तथा स्टॉक एक्सचैंजों की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com से उक्त दस्तावेजों

एजीएम में शामिल होने, मतदान (रिमोट ई–वोटिंग आदि) की विस्तृत प्रक्रिया अधोलिखित लाइन्स पर एजीएम की सूचना

1. यह कम्पनी रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सुचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सविधा उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग तथा सदस्यों के लिये एजीएम में उपस्थित होने की प्रक्रिया

2. कट-ऑफ तिथि अर्थात 22.09.2021 को जैसा भी मामला हो. भौतिक या डिमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य

3. रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 26.09.2021 को 9.00 बजे पूर्वा. (सर्वर समय) में शुरू होगी तथा मंगलवार,

एजीएम की सूचना में दी गई है। वीसी/सर्विसेस लिमिटेड की नियुक्ति की है।

हीं ई-वोटिंग तथा एजीएम में शामिल होने के लिये अधिकृत हैं।

मकान, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः मनोज जौहरी का मकान ।

संपत्ति श्री नरेश कुमार, श्री राजीव, श्री संजीव, श्री अरुण सभी पुत्र 😿 1,82,364.26

फीनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1987PLC030092

पंजीकृत कार्यालय: तीसरी मंजिल, गोपाला टॉवर 25, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

दुरभाष :( 91-11) 2574 7696, 2575 1934/35/36 फैक्स :( 91-11) 2575 1937/38

ई-मेल: narendermakkar@yahoo.com, वेबसाइट:-www.phoenixindia.com

तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं ब्याज व अन्य खर्चों के अधीन होगा।

श्री नरेश कुमार पुत्र संपत्ति के सभी भाग और पार्सल निर्मित आवासीय मकान संख्य

जिला बरेली **श्री राम भरोसे लाल** 259, वार्ड नंबर 8, मीहल्ला कानून गोयान, बहेड़ी जिला बरेली,

तिथिः 06 सितम्बर, 2021 स्थानः मुरादनगर स.सं.: ए57544

केनरा बैंक Canara Bank 📣

सं0 का नाम बंधककर्ता का नाम

दिनाक:- 06.09.2021

PHOENIX

को डाउनलोड कर सकते हैं।

में निर्दिष्ट है:

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 6.9.2021

(ऋणकर्ता /

बंधककर्ता)

#### AIR FORCE STATION ISSAPUR, NEW DELHI-110073

निविदा सूचना

01 अक्तूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक नीचे वर्णित रेजिमेंटल दुकानों के संचालन के लिये वायु सेना स्टेशन इस्सापुर, नई दिल्ली —७३ द्वारा आर्थिक रूप से सुदृढ एवं व्यापारिक पुष्ठभूमि वाले व्यक्ति 🖊 प्रतिष्ठान से मृहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वायु सेना स्टेशन इस्सापुर की एस आई कार्यालय मे 08 **सितंबर 21 से 13 सितंबर 2021 को रु. 100** / — अप्रतिदेय के नगद भूगतान पर प्राप्त की जा सकती है।धरोहर राशि के रूप में एस आई कार्यालय में रु. 1000 / — (वापसी योग्य) की राशि जमा की जाएगी। धरोहर राशि की रिसीप्ट की छायापति के साथ सभी तरह से पूर्ण निविदा प्रपत्र अधिकतम 20 सितंबर 2021 को 10.00 बजे तक मुख्य गारद कक्ष वायु सेना स्टेशन इस्सापुर में रखी गई निविदा पेटी में जमा की जाएगी। निविदा को 20 सितंबर 2021 को 12.00 बजे सभी आवेदक वेंडर के सामने खोली जाएगी । स्टेशन कमांडर वायु सेना स्टेशन रजोकरी को बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदा को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। सभी युद्ध विधवा / विक्लांग सैनिक / पूर्ववर्ति सैनिक या उनकी पत्नी / पूर्ववर्ति सैनिक की विधवा को दुकानों के आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

#### दुकानों की सूची

1) सब्जी की दुकान 3) किराना की दुकान 2) नाई की द्कान 4) जलपान गृह

#### एमको इंडिया लिमिटेड

CIN: L74899DL1987PLC029035 पंजीकृत कार्यालय : 10795, शॉप नं.-7 जीएफ, झंडेवालान रोड, रेक्सीन बाज़ार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 कॉर्पोरेट कार्यालय: सी-53-54, सैक्टर-57, नोएडा-201301,

फोन नं : 0120-4601500

ई-मेल : amco.india@ymail.com वेबसाइट : www.amcoindialimited.com चौतीसवीं (34वीं) वार्षिक आम बैठक के लिए सार्वजनिक सूचना

यह सूचित किया जाता है कि कोविड–19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्राक्पानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, दिनांक 5 मई, 2020 एवं दिनांक 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपत्र) और भारतीय प्रतिमृति तथा विनिमय बोर्ड हारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 ("रोबी परिपत्र") के अनुपालन में एमको इंडिया लिमिटेड ("कम्पनी") की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") विढियो कॉन्क्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑढियो विढियो मध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की

कम्पनी के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक, एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को दोप. 1.00 बजे (आईएसटी) आयोजित की

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कम्पनी की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट की ई कोंपी, एजीएम की सूचना, वितीय विवरण तथा अन्य दस्तावेज के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com और सीढीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एजीएम की सूचना स्टॉक एक्सचेंज जहां कम्पनी की प्रतिभृतियां सूचीबद्ध हैं, की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं जिसका विवरण बैठक की सूचना में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार, कृपया नोट करें कि कोविड–19 महामारी को देखते हुए सरकारी प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की 34वीं एजीएम में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने एवं भाग लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेत् की जाएगी। एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिकली मेजी जाएगी जिनके ई–मेल पते कम्पनी / रजिस्टार एंड टांसफर एजेंट ("रजिस्टार") / डिपॉजिटरी प्रतिमानी (डीपी) के पास पंजीकत हैं। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट सहित सभी पत्राचार प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते को पंजीकृत कराने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन

मौतिक धारिता अपना अनुरोध पत्र कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) ई मेल पता और बैक खाता विवरण दर्ज करने के लिए

> बीटल फाइनेंशियल एंढ कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली—110062 को भेजें। फोन : 011-29961281-283, 26051061, 26051064 ई-मेल : investor@beetalfinancial.com

ठिमेट घारिता | कृपया अपने ढीपी से सम्पर्क करें और आपके ढीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता एवं बैंक खाता विवरण पंजीकृत कराएं ।

कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्घारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों को सेन्ट्रल ढिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा, कम्पनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। रिमोट ई-बोटिंग और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी जाएगी। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण या जिन्होंने अपना ई—मेल पता कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं कराया है, वे रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट देने के लिए एजीएम की सूबना में दी गई प्रक्रिया का पालन करें।

स्थान : नोएडा, यू.पी

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेत्)

मांग नोटिस के तिथि और सांकेतिक कब्जे र्क

उसके अनुसार बकाया राशि विधि एवं स्थान

04.09.2021

बहेडी

24.05.2021

+ ब्याज व अन्य

खर्चे 01.05.2021 से

प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक : 06.09.2021

कृते एमको इंडिया लिमिटेड सुरेन्दर कुमार गुप्ता प्रबंध निदेशक ढीआईएन : 00026609

## सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

संपर्क सूत्र:- 01232 - 261521

CIN - L17111UP1988PLC009594 पंजीकृत कार्यालयः पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद-201206 (यू.पी.) ई—मेलः sybly@rediffmail.com, info@sybly.com, वेबसाइटः www.sybly.com

वार्षिक साधारण समा की सूचनाः

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 33वीं वार्षिक साधारण सभा बृहस्पतिवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 11:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पर्वनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद–201206 (यू.पी.) पर वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनाँक 28 अगस्त 2021 में वर्णित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सचना व्याख्यात्मक विवरण सहित एवं 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट समेत पृथक रूप से इलैक्टानिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चकी है, जिनके ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिपाजिटरी पार्टीसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं. ँ उन्हें एजीएम नोटिस की प्रति भौतिक रूप से स्वीकृत माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट (www.sybly.com) और सीडीएसएल की वेबसाईट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। र्ड-वोटिंगः

रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपाजिटरी सिक्योरिटीज लि0 ('सीडीएसएल') के साथ व्यवस्था की है। इस संबंध में सदस्य कृपया ध्यान दें:

- (i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, जिसे कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेबी (एलओडीआर) रेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुपालन में वार्षिक साधारण सभा के नोटिस मैं वर्णित कार्यवाही को इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपंन्न कराया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध
- रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेत् शेयर होल्डरों के निर्धारण हेत् कट-आफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर 2021 है। जिन सदस्यों के पास कट-आफ तिथि की कागजी अथवा डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर हैं. वे सीडीएसएल के इलैक्टोनिक वोटिंग सिस्टम, जो https://www.evotingindia.com है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलैक्ट्रानिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर
- रिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर 2021 (सोमवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितम्बर 2021 (बुधवार) को 5.00 बजे सायं पर समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा २९ सितम्बर २०२१ (बुधवार) को ५.०० बजे सायं पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरांत वोटिंग की छट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपनी वोट डाल देने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा।
- (iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनता है एवं कट—आफ तिथि 23 सितम्बर, 2021 (बृहस्पतिवार) को शेयरधारक हो, वे ई—वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संपर्क से हासिल कर सकते हैं: दरभाष संख्याः 022-23058738 व 022-23058542-43, ई--मेल आई डी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com
- (v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- (vi) कोई भी सदस्य अपने मताधिकार का रिमोट ई—वोटिंग द्वारा इस्तेमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट पुनः डालने की छुट नहीं होगी।
- (vii) केवल वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई—वोटिंग द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट-आफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरीज द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिसियल आनर्स के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

कंपनी की वार्षिक साधारण समा के नोटिस को http://www.sybly.com/wpcontent/uploads/2021/09/Notice AGM Sybly 2021.pdf से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग युजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध है। रिमोर्ट ई—वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द तिरोडकर, श्री अंकित बांदीवाडेकर, सीडीएसएल, ट्रेड वर्ल्ड, फिरोज जीजीबाई टॉवर्स, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001 से अधिकृत ई–मेल आईडीजः helpdesk.evoting@cdslindia.com या दूरभाष संख्याः (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं। वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड—19 महामारी के मद्देनजर

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसओपी/एडवाईजरी/नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सुरक्षा प्रोटोकाल मसलन फेस मास्क, हैंड सेनेटाईजेशन आदि का कड़ाई से पालन करते हुए होगी। वास्ते-सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

तिथिः 06 सितम्बर, 2021 स्थानः मुरादनगर

ह0/- (सागर अग्रवाल) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स.सं.: ए57936

# लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1992PLC049022) **पंजीकृत कार्यालयः** एसेट संख्या ६, एरोसिटी होस्पिटैलिटी

डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली-110037 दूरभाषः +91-11-4605 0101; फैक्सः +91-11-4605 0110

वेबसाइटः www.lemontreehotels.com

इंमेलः sectdeptt@lemontreehotels.com 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना – ई-वोटिंग की जानकारी

1. 1 सितम्बर, 2021 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता में, कम्पनी का एजीएम बृहस्पतिवार, 30 सितम्बर, 2021 को 3:00 बजे अपराह वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों के माध्यम से संचालित करने से सम्बद्ध प्रकाशित सूचना के आगे जानकारी दी जाती है कि, एतद द्वारा शेयरधारकों को अवगत कराया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') ने कम्पनी हेत् एवं उसकी ओर से वर्ष 2020–21 की वार्षिक रिपोर्ट एजीएम की सूचना के साथ ही मंगलवार, 7 सितम्बर, 2021 को उन सभी शेयरधारकों को **ईमेल कर दी है** जिनका ईमेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरीयों के साथ पंजीकृत है।

2. वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की आह्त सूचना वेबसाइट www.evoting.nsdl.com, www.nseindia.com. www.bseindia.com, www.lemontreehotels.com पर भी उपलब्ध है।

- सभी सदस्यों को एतद द्वारा अवगत किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 को प्रात: 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा बुधवार, 29 सितम्बर, 2021 को साय 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की अनुमति उक्त तिथि और समय के उपरान्त नहीं दी जाएगी। एनएसडीएल उसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अधिकार को निर्धारित करने हेतु कट-ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 है। जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला हो, वे भी बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु पुनः अपना योट डालने हेतु अधिकृत नहीं होंगे।
- 4. कोई व्यक्ति, जो कम्पनी के शेयरों को अधिगृहित करता है और सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 सितम्बर, 2021 के अनुसार शेयरों को प्रतिरक्षित रखता है, अपना फोलियों संख्या / डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर ईमेल भेजकर लॉग–इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि यदि आप पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।
- रिमोट ई—वोटिंग (एजीएम से पूर्व तथा एजीएम के दौरान) से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के सम्बन्ध में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' ('FAQs') एवं शेयरधारकों हेत् ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 102 0990 1800 22 4430 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं अथवा एनएसडीएल में सहायक प्रबंधक सुश्री सोनी सिंह से उपरोक्त निर्धारित ईमेल आईडी एवं टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कृते लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड

हस्ता/-निखिल सेठी

ग्रुप कम्पनी सचिव एवं जीएम लीगल

कॉनकॉर CONCOR

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरल कम्पनी (भारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) NSIC New NDBP Building, 2nd Floor, Okhla Indl. Estate (Opp. NSIC Okhla Netro station), New Delhi-110 020

निविदा सूचना (केवल ई-निविदा माध्यम से) नर्लेंड कंटेनर डिपो / दादरी, उत्तर प्रदेश में कार्गो हैंडलिंग की व्यवसायिक सेवाएं दो बोली प्रणाली में ऑनलाइन खर्ल –निविदा सह उलट नीलामी को केवल ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है।

नेविदा सं CON/Area-I/TC/Cargo/Dadri/II/2021 हार्य का नाम इनलैंड कटेनर डिपो / दावरी, उत्तर प्रदेश में कार्गों हैडलिंग के लिए व्यवसायिक सेवाएं। नुमानित लागत ₹1,82,90,068.44 / -- 4+1 वर्ष हेत् (जीएसटी सहित)। विदा की अवधि रोहर राशि" सभी बोलीदाताओं के लिए छट। स्तावेज की लागत ₹1,000 / - ई-भगतान के माध्यम से सभी कर और शुल्क सहित। विदा प्रोसेसिंग फीस ₹4,720 / - ई-भगतान के माध्यम से सभी करों और शुल्क सहित (अप्रतिदेय)। की की तारीख (ऑनलाइन) 08.09.2021 अपराहन 15:00 बजे से (21.09.2021 अपराहन 16:00 बजे तक)। मा करने की अंतिम तारीख एवं समय 22.09.2021 अपराहन 15:00 बजे तक।

ई-भगतान माध्यम से

ात्रता मानदंड और अन्य विवरणों हेतु कृषया www.concorindia.co.in अथवा eprocure.gov.in अथव www.tenderwizard.com/CCIL पर लोगओंन करें। बोलीदाताओं से वेंबसाइट को नियमित रूप से देखने क मनरोप किया जाता है। कॉनकॉर किसी भी अथवा सभी निविदाओं को इसका बिना कोई कारण बताए अस्वीकर करने का मींकार सुरक्षित रखता है। संपूर्ण विवरणों हेतु www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉगऑन करें। वरिष्ठ महाप्रबंधक / सीएंडओ / क्षेत्र-आरएसीएल गियरटेक लिमिटेड

23.09.2021 अपराहन 15:30 बजे।



स्थान : नोएडा

सीआईएन: L34300DL1983PLC016136 पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंजिल, इरोस कॉरपोरेट टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110019 फोन: +91-11-66155129, +91-120-4588500

फैक्स नंबर: +91-120-4588513 | ई-मेल: Investor@raclgeartech.com वेबसाइट: www.raclgeartech.com

शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सुचना

एतदारा सचित किया जाता है की कम्पनी द्वारा जारी निम्न शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के कथित रूप से गम/स्थानच्यत हो जाने की सुचना मिली है तथा उसके पंजीकृत धारक ने डप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कम्पनी के पास आवेटन किया है

| फोलियो नं. | शेयरधारक<br>का नाम | शेयर प्रमाणपत्र(त्रों)<br>संख्या | विशिष्ट संख्या |         | शेयरो की |
|------------|--------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|
|            |                    |                                  | से             | तक      | संख्या   |
| 0013143    | बिपिन आर मेहता     | 22180-81                         | 4817008        | 4817207 | 200      |

एतद्वारा आम जनता को किसी भी रूप में उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों की खरीद अथवा व्यवसाय के प्रति सतर्क किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संबंध में कम्पनी के प्रति कोई दावा हो, वे इस सुचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा तथा कम्पनी डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जरी करेगी। आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड के लिए

दिनांक : 7 सितंबर, 2021

शगुन बाजपेयी कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

अजन्ता सोवा लिमिटेड सीआईएन : L15494RJ1992PLC016617 कार्यालय : एसपी-916, फेज-III, इण्डस्ट्रियल एरिया,

जिला अलवर, भिवाड़ी-301 019, राजस्थान, दूरभाष नं. : 911-6176727, 911-6128880 कॉपॅरिट कार्यालय :12वीं मंजिल, बिगजोस टॉवर, ए-८, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, दिल्ली-110 034

दूरभाष नं. : 91-11-42515151, फैक्स : 91-11-42515100 चेबसाइट :www.ajantasova.com, ई-मेल : cs@ajantasova.com

30वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर तथा

ई-वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतद्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य पावधानों तथा उसके तहत नि

कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए परिपत्र') के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी. 2021 ('सेबी परिपत्र') के अनेपालन में किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना कम्पनी की 30वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार, 30 सितम्बर, 2020 को 2.00 बजे अप. आयोजित की जाएगी सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित हो सकेंगे। वीसी/ओएवीएम सुविधा माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम परा करने के उद्देश्य से की जायेगी। प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों को 30वीं एजीएम के नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने

की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और तदनुसार, 30वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 मंगलवार, 7 सितंबर, 2021 को उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकत हैं। 30वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कम्पनी की वेबसाइट www.ajantasoya.com तथा

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात www.bseindia.com और और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं। एजीएम की सूचना एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के निर्देश : कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014

('नियम') के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ('सुचीबद्धता विनियम') के अनुसार, कंपनी एजीएम में व्यवसाय के लेन-देन के लिए अपने शेयरधारकों को ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा सहर्ष प्रदान कर रही है, और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को नियक्त किया है।

जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है. केवल वे ही वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 30वीं एजीएम भाग लेने तथा 30वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र होंगे। रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 27 सितंबर, 2021 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 29

सितंबर, 2021 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप

से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला था, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम माध्यम से 30वीं एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे अपना ई-वोट दोबारा डालने के हकदार नहीं होंगे।

एक बार किसी संकल्प पर सदस्य द्वारा वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–वोटिंग के उद्देश्य के लिए कट–ऑफ तिथि गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 निर्धारित की गई है वोटिंग अधिकारों की गणना कट-ऑफ तिथि तक कंपनी के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के चुकता मूल्य पर की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ईमेल द्वारा एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 तक शेयर धारण करता है, evot- $\mathrm{ing} @\mathrm{nsdl.co.in}$  पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह वोट डालने के लिए अपने

मौजुदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड भूल गया है, तो वह www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 और 1800-2244-30 पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकता है।. इलेक्टॉनिक वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा remote e-Voting user manual देख सकते हैं या टोल फ्री नंबरः 1800-1020-990 और 1800-22-

44-30 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड - ए विंग, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400013 से संपर्क करें। । जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी/आरटीए के साथ अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है. वे अपना ई–मेल आईडी पंजीकृत करके रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।

एजीएम के दौरान डीमैटरियलाइज्ड और भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए और उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं किया है, रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया और रीति एजीएम की सूचना में प्रदान की गयी है।

मैसर्स आर एंड डी कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली के श्री देवव्रत देब नाथ ( सदस्यता संख्या एफसीएस 7775), कंपनीं सचिव, पूर्णकालिक कार्यरत को ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियक्त किया गया है।

बुक क्लोजरः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के नियम 42 के अनुसार, सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर बुक गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 को दोपहर 2:00 बजे (आईएसटी) को होने वाली 30वीं वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 से गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगी।

कृते अजन्ता सोया लिमिटेड सुशील गोयल (प्रबन्ध निदेशक

तिथि : 07.09.2021

स्थान : नई दिल्ली

(DIN: 00125275)

8 सितम्बर, 2021



दिनांक: 7 सितम्बर, 2021

स्थान : नई दिल्ली

सं. (क)

प्रदेश-201301

स्थानः नई दिल्ली

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात-362266 शाखा कार्यालय : डी-17, सेक्ट-3, नोएडा, उ.प्र. वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(2) (अधिनियम) के तहत मांग सूचना

क्र. कर्जदार(रों) के नाम तथा पता ऋण खाता बकाया राशि (रु.) सम्पत्ति का विवरण ऋण राशि एनपीए सूचना की तिथि सं. ( रु. ) (퍟) (ख) (घ) (刊) (च) ( छ ) सुरेन्दर गौतम, 50-बी, एलआईजी फ्लैट्स उद्योग विहार, ब्लॉक ई-4, सेक्टर-82, नोएडा, महर्षि नगर. उत्तर बकाया मूलधन एरिअर्स 15.07.2021 30-06-202 फ्लैट नं. 3049, टावर/ LNDELHL-रु. (13.07.2021 तक उपचयित ब्लॉक. सीएसटी/गार्डन 3324532/ 01180040504 साथ हीं: मोन्स्टर डॉट कॉम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट नं. 5, ई.एफ.जी.एच., सेक्टर-126, तपस्या बिल्डिंग विलम्बित प्रभारों तथा ब्याज होम्स, ईको विलेज-1, एक्सप्रैसवे. नोएडा. उ.प्र.-201304 सहित के द्वारा रु. 18,81,645/-प्लॉट नं. ८, सेक्टर-1, साथ हीं: फ्लैट नं. 3409, टावर/ब्लॉक, सीएसटी/गार्डन होम्स, ईको विलेज-1, प्लॉट नं. 8, सेक्टर-1, ग्रेटर (रु. अठारह लाख इक्यासी ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रेदश-नोएडा, उत्तर प्रेदश-201303 हजार छः सौ पैंतालिस मात्र) 201303 का सभी भाग साथ हीं: बी-64, एडिशनल टाउनशिप, एनटीपीसी बदरपुर, जैतपुर, दिल्ली-110044 2. रेखा गौतम 50-बी, एलआईजी फ्लैट्स उद्योग विहार, ब्लॉक ई-4, सेक्टर-82, नोएडा, महर्षि नगर, उत्तर तथा हिस्सा

नोएडा, उत्तर प्रेदश-201303 जैसा कि आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड जिसका ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय है (यहाँ के बाद 'एबीएचएफएल' वर्णित) ने उक्त प्रत्येक ऋणधारकों के नाम के समक्ष कालम घ में वर्णित ऋण खाता सं. के माध्यम से कॉलम ग में लिखित पृथक साख सुविधा कॉलम क में वर्णित उक्त नामित ऋणधारकों को प्रदान किया था।

उक्त साख सुविधाएं अन्य बातों के अलावे कॉलम ख में वर्णित अचल सम्पत्ति पर गिरवी द्वारा प्रतिभृत है (यहाँ के बाद ''प्रतिभृत परिसम्पत्ति'' वर्णित)।

साथ हीं: फ्लैट नं. 3409. टावर/ब्लॉक, सीएसटी/गार्डन होम्स, ईको विलेज-1, प्लॉट नं. 8, सेक्टर-1, ग्रेटर

कि, ऊपर नामित ऋणधारक ऋण खाता के वित्तीय अनुशासन को कायम रखने में विफल रहे तथा एबीएचएफएल द्वारा व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में प्रबंधित लेखा पुस्तकों के अनुसार प्रत्येक ऋणधारक(कों) के नाम के समक्ष कॉलम 'ङ' में वर्णित राशि बकाया है। उक्त ऋणधारकों की ओर से ऋण राशि के पुनर्भगतान में लगातार चुक के कारण उक्त ऋणधारकों की ऋण खाता को भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अंतर्गत क्रमशः कॉलम 'छ' में दर्शाई गई तिथि को

एबीएचएफएल द्वारा गैर प्रचालन परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। तदुपरांत, प्रत्येक ऋणधारक को सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत कॉलम 'च' में उल्लिखित सुचना जारी की गई, वह भी अन्डेलिवर्ड/डेलिवर्ड रही है। उपरोक्त चूक को देखते हुए एबीएचएफएल एतद्द्वारा ऊपर नामित ऋणधारकों को निर्देश देता है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज, लागत एवं चार्जेज सहित ऊपर कॉलम 'च' में दर्शाई गई तिथि तक कॉलम 'ङ में दर्शाई गई सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा एबीएचएफएल प्रतिभृत परिसम्पत्ति का कब्जा कर लेगा तथा कानून में एबीएचएफएल को उपलब्ध अन्य कार्रवाई भी करेगा।

कि, कृपया यह जान लें कि आप, ऊपर नामित ऋणधारक को एबीएचएफएल की विशिष्ट लिखित पूर्व अनुमित को छोड़कर किसी भी तरीके से प्रतिभूत परिसम्पित्त का (अन्तरण, बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप में) स्वत्व त्याग करने अथवा थर्ड पार्टी हित का निर्माण करने अथवा व्यवसाय करने से निषिद्ध किया जाता है। कृपया ध्यान रखें कि उसका किसी भी रूप में उल्लघंन करने पर एक वर्ष तक की अवधि का कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। कि, कृपया ध्यान रहे कि यह वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत अंतिम सूचना है। यह कहना आवश्यक नहीं है कि एबीएचएफएल को पूरी तरह

से आपकी जोखिम, उत्तर दायित्व एवं लागतों पर आप एड्रेसी के विरुद्ध उपरोक्त किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा। तिथि: 08.09.2021 प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड

28.09.2021 को 5.00 बजे अप. (सर्वर समय) में बंद होगी। उसके बाद रिमोट ई-वोटिंग सुविधा निष्क्रिय कर दी जायेगी। 4. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन

उसमें फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे। यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करते हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान लागु रहेगा। 5. यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद किन्तु कट-ऑफ तिथि अर्थात् 22.09.2021 को या उससे पूर्व कम्पनी का

सदस्य बने हों तथा सचना के प्रेषण के बाद ई-मेल पता पंजीकत प्राप्त कर सकते हैं 6. यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयरधारक बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात

22.09.2021 को शेयर धारित करते हैं, वे अपनी फोलियो सं./डीपी आईडी सं. का उल्लेख करते हुए info@masserv.com पर ईमेल भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि ऐसे शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के लिये (आरटीए∕डीपी) के पास पहले से पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान युजर आईडी एवं पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

7. सेबी सर्क्युलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 तिथि 9 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन ई-वोटिंग प्रक्रिया विस्तार से एजीएम की सूचना में दी गई है। 8. स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में वर्च्युअल सभा में मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये कम्पनी ने श्री अनंत मिश्रा,

मै. अनंत एंड क. के चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट, आई चार्टर्ड के एकाउन्टैन्ट्स, 411, एंजेल मेगा माल, कौशाम्बी, गाजियाबाद-201010 को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिये सदस्य कृपया वार्षिक साधारण सभा की सूचना में ''टिप्पणी'' खंड देखें। ई-वोटिंग प्रक्रिया अथवा वर्च्यअल सभा में मतदान से संबंधित किसी भी पृछताछ के लिये शेयरधारक कम्पनी की वेबसाईट www.phoenixindia.com या ई-वोटिंग एजेन्सी की वेबसाईट www.evotingindia.com पर प्रकाशित शेयरधारकों

के लिये यूजर मैन्युअल देखें। सदस्यगण ई-वोटिंग सुविधा अथवा वर्च्युअल एजीएम में मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्नों के लिये श्री शरवण मंगला, महा प्रबंधक, टी-34, 2रा तल, ब्लॉक टी, ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट फेज 2 रोड, नई दिल्ली, दिल्ली-110020, ई-मेल:info@masserve.com, सम्पर्क नं.: +91 11 26387281/82/83 से भी सम्पर्क कर सकते हैं। बोर्ड के आदेश से

फीनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये

नरेन्दर मक्कर (DIN-00026857) कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com